

मसाले

| कमोडिटी | एक्सपायरी | स्टॉपलॉस 2 | स्टॉपलॉस 1 | मध्य | रेजिस्टेंस 1 | रेजिस्टेंस 2 | रूझान |
|------------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|--------------|-------|
| धनिया (अप्रैल) | 19-अप्रैल-24 | 7974.67 | 8029.33 | 8064.67 | 8119.33 | 8154.67 | मंदी |
| धनिया (मई) | 19-मई-24 | 8061.33 | 8072.67 | 8061.33 | 8072.67 | 8061.33 | तेजी |
| जीरा (मार्च) | 20-मार्च-24 | 23631.67 | 23818.33 | 23946.67 | 24133.33 | 24261.67 | तेजी |
| जीरा (अप्रैल) | 19-अप्रैल-24 | 23965.00 | 23980.00 | 23990.00 | 24005.00 | 24015.00 | तेजी |
| हल्दी (अप्रैल) | 19-अप्रैल-24 | 15831.33 | 16496.67 | 16915.33 | 17580.67 | 17999.33 | तेजी |
| हल्दी (जून) | 20-जून-24 | 16212.00 | 16876.00 | 17244.00 | 17908.00 | 18276.00 | तेजी |

तिलहन एवं खाद्य तेल

| कमोडिटी | एक्सपायरी | स्टॉपलॉस 2 | स्टॉपलॉस 1 | मध्य | रेजिस्टेंस 1 | रेजिस्टेंस 2 | रूझान |
|----------------------|--------------|------------|------------|---------|--------------|--------------|-------|
| कैस्टरसीड (मार्च) | 19-मार्च-24 | 5636.00 | 5678.00 | 5726.00 | 5768.00 | 5816.00 | मंदी |
| कैस्टरसीड (अप्रैल) | 19-अप्रैल-24 | 5733.00 | 5780.00 | 5820.00 | 5867.00 | 5907.00 | मंदी |

अन्य कमोडिटी

| कमोडिटी | एक्सपायरी | स्टॉपलॉस 2 | स्टॉपलॉस 1 | मध्य | रेजिस्टेंस 1 | रेजिस्टेंस 2 | रूझान |
|---------------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|--------------|---------|
| कपास (अप्रैल-24) | 30-अप्रैल-24 | 1610.67 | 1632.33 | 1647.67 | 1669.33 | 1684.67 | साइडवेज |
| कोकूड (मार्च) | 19-मार्च-24 | 2616.67 | 2636.33 | 2651.67 | 2671.33 | 2686.67 | साइडवेज |
| कोकूड (अप्रैल) | 19-अप्रैल-24 | 2655.67 | 2675.33 | 2689.67 | 2709.33 | 2723.67 | साइडवेज |
| ग्वारसीड (मार्च) | 19-मार्च-24 | 5211.33 | 5240.67 | 5274.33 | 5303.67 | 5337.33 | मंदी |
| ग्वारसीड (अप्रैल) | 19-अप्रैल-24 | 5269.33 | 5298.67 | 5329.33 | 5358.67 | 5389.33 | मंदी |
| ग्वारगम (मार्च) | 19-मार्च-24 | 10159.67 | 10211.33 | 10265.67 | 10317.33 | 10371.67 | मंदी |
| ग्वारगम (अप्रैल) | 19-अप्रैल-24 | 10259.33 | 10313.67 | 10374.33 | 10428.67 | 10489.33 | मंदी |
| मेंथा ऑयल(फरवरी) | 29-फरवरी-24 | 898.43 | 902.87 | 906.43 | 910.87 | 914.43 | मंदी |
| मेंथा ऑयल(मार्च) | 30-मार्च-24 | 910.77 | 916.13 | 920.47 | 925.83 | 930.17 | तेजी |

**One has to follow the trend and see the price only at closing. This is not for Intra day trading.

कृषि कमोडिटीज आउटलुक

मसाले

प्रमुख उत्पादक राज्यों में आपूर्ति की कमी को लेकर व्याप्त चिंताओं के कारण हल्दी की कीमतों में तेजी की संभावना है। हल्दी की मौसमी कीमतों से पता चलता है कि फरवरी-मार्च के दौरान कीमतें मुख्य रूप से त्योहारी खरीदारी के कारण अधिक रहती हैं। आने वाले महीनों में त्योहारों और शादी के मौसम की शुरुआत के मद्देनजर खरीदारों की ओर से सक्रिय खरीदारी में बने रहने की संभावना है। पैदावार में गिरावट के बीच हल्दी के तहत कम उत्पादन क्षेत्र के कारण उत्पादन में लगभग 14% की गिरावट होने की संभावना है। लेकिन हाल के महीनों में निराशाजनक निर्यात की रिपोर्ट से अत्यधिक बढ़त पर रोक लगने की संभावना है क्योंकि बांग्लादेश से कम खरीद के कारण भारत से हल्दी निर्यात दिसंबर-23 में 13% कम होकर 10.4 हजार टन रह गया।

हल्दी (अप्रैल) वायदा की कीमतें निकट भविष्य में 16500-17800 के दायरे में करोबार कर सकती है।

जीरा वायदा की कीमतों में मिला-जुला कारोबार होने की उम्मीद है क्योंकि राजस्थान और गुजरात में उभरते मौसम के खतरे, जिससे उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, के मद्देनजर किसी भी समय शॉर्ट कवरींग देखी जा सकती है। इसके अलावा, निर्यात की बेहतर संभावनाओं से भी कीमतों में मजबूती आएगी। मौजूदा दरों पर जीरा की कीमतें प्रतिस्पर्धी हो गई हैं, जिसने अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को आकर्षित किया है। जीरा के निर्यात के मौसम से पता चलता है कि मार्च-अप्रैल में त्योहारों के मद्देनजर मजबूत मांग की संभावनाओं के कारण फरवरी-मार्च के दौरान निर्यात मांग अधिक रहती है। बढ़ती मांग के साथ भारत से जीरा निर्यात दिसंबर-23 में बढ़ गया क्योंकि भारत ने पिछले वर्ष के 11.79 हजार टन की तुलना में दिसंबर-23 में लगभग 12.23 हजार टन का निर्यात किया। लेकिन अप्रैल-23-दिसंबर-23 के दौरान कुल निर्यात साल-दर-साल 30% कम होकर 96.7 हजार टन रहा। बंपर फसल की उम्मीद में बढ़त सीमित रहने की संभावना है। वर्ष 2024-25 के लिए उत्पादन में साल-दर-साल लगभग 30% की वृद्धि होने की संभावना है। **जीरा की कीमतें 23000-27000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।**

खरीदारी गतिविधियों में सुधार के कारण धनिया की कीमतों के तेजी के रूख पर कारोबार करने की संभावना है। भारत में कमजोर उत्पादन अनुमान और त्योहारी खरीदारी में सुधार से निकट भविष्य में कीमतें स्थिर रहने की संभावना है। उत्पादन क्षेत्र और उपज में गिरावट के कारण उत्पादन में साल-दर-साल लगभग 10-15% की कमी होने की संभावना है। भारत ने नवंबर-23 में पिछले वर्ष के 2.4 टन की तुलना में लगभग 3.05 हजार टन धनिया का निर्यात किया, जबकि अप्रैल-23-दिसंबर-23 के दौरान कुल निर्यात पिछले वर्ष के 24.8 हजार टन के मुकाबले 78.47 हजार टन दर्ज किया गया, जो कि साल-दर-साल 215% अधिक है। **धनिया की कीमतें 7900-8400 के दायरे में रहने की संभावना है।**

अन्य कमोडिटीज

भौतिक बाजार में आपूर्ति में कमी के कारण कपास की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। घरेलू बाजार में उत्पादन कम होने के कारण आवक की गति कम हो गई है। भारतीय कपास निगम द्वारा एमएसपी पर आक्रामक खरीदारी से भी कीमतों को स्थिर रहने में मदद मिली। कपास सीजन 2023-24 के दौरान, 21 फरवरी-24 तक सीसीआई ने एमएसपी ऑपरेशन के तहत 3265971 गांठों की खरीद की है। आईसीई में कॉटन की कीमतों में मजबूती से भारतीय कपास की कीमतों को तेजी के रूझान पर व्यापार करने में मदद मिली क्योंकि कम आपूर्ति के अनुमान के कारण पिछले 7 हफ्तों में आईसीई में कॉटन की कीमतों में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण कपास की कीमतें अधिक रहने की संभावना है क्योंकि आने वाले हफ्तों में आवक कम रहने की संभावना है क्योंकि वर्ष 2023-24 में अब तक लगभग 65%-68% आवक बाजार में पहुंच चुकी है। **एमसीएक्स पर कॉटन की कीमतों के 60500-62000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है, जबकि कपास (अप्रैल 24) वायदा की कीमतों के 1620-1670 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।**

ग्वार उत्पादों के निर्यात में कमी के कारण ग्वारसीड वायदा में गिरावट की उम्मीद है। नॉर्वे और नीदरलैंड से कम खरीद के साथ दिसंबर-23 में ग्वारखली का निर्यात साल-दर-साल 43% गिरकर 7.61 हजार टन हो गया। दिसंबर-23 में ग्वारगम निर्यात भी साल-दर-साल 6% कम होकर 19.7 हजार टन रह गया। अक्टूबर-23-दिसंबर-23 के दौरान ग्वार उत्पादों का कुल निर्यात साल-दर-साल 13% कम होकर 92.3 हजार टन रह गया। सुस्त निर्यात से कीमतों पर असर पड़ेगा क्योंकि नवंबर-जनवरी ग्वार उत्पादों के अधिकतम निर्यात का समय है, लेकिन अमेरिका से सीमित मांग के कारण वर्ष 2023-24 में अब तक निर्यात सुस्त रहा है। लेकिन, घटती आवक से गिरावट सीमित रह सकती है। **ग्वारसीड की कीमतों को 5150 रू पर सपोर्ट मिल सकता है जबकि 5500 पर रेजिस्टेंस रह सकता है जबकि ग्वारगम की कीमतों के 10000-10800 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।**

बाजार में आपूर्ति कम होने से मेंथा ऑयल की कीमतों में तेजी रहने की संभावना है। मेंथा के रकबे में गिरावट की उम्मीद से बाजार के सेंटिमेंट को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन भारत से मेंथॉल और मेंथा ऑयल के निर्यात में गिरावट के कारण बढ़त सीमित रहने की संभावना है। अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 की अवधि के दौरान भारत से मेंथॉल और मेंथा ऑयल के निर्यात में क्रमशः साल-दर-साल 15.9% की गिरावट के साथ 7.3 हजार टन और साल-दर-साल 19% की गिरावट के साथ 1.06 हजार टन रह गया है। **मेंथा ऑयल की कीमतें 940 पर मजबूत रेजिस्टेंस के साथ 910 रू पर सपोर्ट ले सकती है।**

बाजार में आपूर्ति कम होने के कारण अरंडी की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। लेकिन अरंडी के तेल, अरंडीकेक की निर्यात मांग कम होने के कारण कीमतों में बढ़त सीमित होने की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में पेराई गतिविधियां धीमी रहेंगी और इसका प्रभाव अरंडी की कीमतों पर दिखने की संभावना है। **अरंडी वायदा की कीमतों के 5600-5900 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।**

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A/Wing 401/402, 4th Floor,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशंसात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रॉकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएँ और संबंधित सेवाएँ करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कमिटेड नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एमसीएस स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य हैं। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एगेंसिटी द्वारा सिक्वोरिटीज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एनएच द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशिष्ट कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

दिसक्लेमर: यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सक्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कनेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कनेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉरक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उदरय, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता को जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश का वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बढ़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉरक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटी में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रॉकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इन्का अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विचारों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।